



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 2007/पौष 18, 1928

No. 16]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 2007/PAUSA 18, 1928

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2007

New Delhi, the 3rd January, 2007

का.आ. 16(अ).—राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) की कार्यकारी समिति और परिषद् के गठन से संबंधित इस मंत्रालय के सं. का.आ. 1779 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2006 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रीय खेल विकास निधि की परिषद् के सदस्य के रूप में निम्नलिखित सदस्यों को भी नियुक्त किया जाता है :-

S.O. 16(E).—In continuation of Notification of this Ministry published in the Gazette of India vide No. S.O. 1779 (E), dated 18th October, 2006 regarding constitution of the Council and the Executive Committee of the National Sports Development Fund (NSDF), the following members are also appointed as members of the Council of NSDF :—

परिषद्

Council

1. ले. कर्नल राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाज
2. श्री जोगिन्दर सिंह सैनी, एथलेटिक कोच
3. श्री विश्वनाथन आनन्द, शतरंज खिलाड़ी

1. Lt. Col. Rajyavardhan Rathore, Shooter
2. Sh. Joginder Singh Saini, Athletic Coach
3. Sh. Vishwanathan Anand, Chess Player.

अन्य शर्तें पूर्व अधिसूचना में दर्शाये अनुसार ही रहेंगी।

The other terms and conditions will remain the same as indicated in earlier notification.

[सं. एफ. 20-3/1999-एसपी-III]

[No. F. 20-3/1999-Sp-III]

एस. कृष्णन, अपर सचिव

S. KRISHNAN. Addl. Secy.